

:प्रेस नोट थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं । दिनांक 07-10-2020:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बदायूं के निर्देशन मे थाना सिविल लाइन बदायूं पर पंजीकृत मु0अ0सं0 320/20 में चोरी गयी लाईसेंसी रिवाल्वर मय 9 अदद जिन्दा कारतूस व करीब 6 लाख रूपये के सोने चादी के जेवरात व 8000/रू0 नगद अभियुक्तगण आकाश कुमार ,बन्टी कश्यप , अदनान सिद्दीकी व सौरभ को गिरफ्तार कर बरामद किये गये है। उल्लेखनीय है कि वादी श्री सुरेन्द्र पाल सिंह पुत्र भीष्म राम निवासी खरखोली खुर्द थाना अलापुर बदायूं मे राजकीय इन्टर कालेज गभियाई में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त है एवं सरकारी आवास में टीचर्स कालोनी जिला अस्पताल के सामने सपरिवार रहते है। दिनांक 03.10.2020 को यूपीएससी परीक्षा ड्यूटी हेतु बरेली गये हुए थे उनकी बेटी प्रीती सिंह करीब 12 बजे दिन अपने मामा के घर मौहल्ला खेडा नवादा चली गयी और उनकी मां अपने छोटे पुत्र के घर नेकपुर चली गयी । दि0 3/4/10/2020 की रात्रि में अभियुक्तगणो ने सुरेन्द्र पाल सिंह के घर में चोरी का अंजाम दिया जिसमें लाइसेन्सी रिवाल्वर मय 9 अदद जिन्दा कारतूस व करीब 6 लाख रूपये के सोने चादी के जेवरात व 8000/रू0 नगद चोरी गये जिसके सम्बन्ध में दि0 04.10.2020 को सुरेन्द्र पाल सिंह ने थाने आकर मु0अ0सं0 320/2020 धारा 457/380 पंजीकृत कराया घटना पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं द्वारा थाना सिविल लाइन पुलिस एवं स्वाट टीम को घटना के अनावरण करने हेतु टीम को लगाया गया कल दिनांक 06.10.2020 को चार अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चोरी गया शतप्रतिशत चोरी गये जेवरात को बरामद किया अभियुक्तो ने लाईसेंसी रिवाल्वर को पडौलिया के तालाब में छिपाकर रखा था कि उसके लिए उपयुक्त ग्राहक मिलने पर वहाँ से ही दे दिया जायेगा। अभियुक्तगण की निशादेही पर तालाब से लाईसेंसी रिवाल्वर मय कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण का रिमाण्ड हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है । श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 10,000/-रूपये का पुरुस्कार प्रदान किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. आकाश कुमार पुत्र सुरेश नि0 खेडा बुजुर्ग पानी की टंकी के पास थाना सि0ला0 बदायूं
2. बन्टी कश्यप पुत्र रामपाल नि0 खेडा बुजुर्ग पानी की टंकी के पास थाना सि0ला0 बदायूं
3. अदनान सिद्दीकी उर्फ अन्नू पुत्र रहीश नि0 खेडा बुजुर्ग थाना सि0ला0 बदायूं
4. सौरभ पुत्र ठाकुर दास नि0 खेडा बुजुर्ग थाना सि0ला0 बदायूं

बरामदगी-

दो कंगन, दो जंजीर, दो झुमकी बडी, दो झुमकी छो फर्द बरामदगी दो कंगन, दो जंजीर, दो झुमकी बडी, दो झुमकी छोटी, एक मांग की टीका तीन अंगूठी, एक मंगल सूत्र, दो कुण्डल, तीन नोज पिन समस्त सोने के व एक जोडी पायजेब चांदी व एक जोडी पायल चांदी व 33 सिक्के चांदी के व 8000 रुपये नगद व एक अदद रिवाल्वर मय कवर व डोरी एवं कवर में फसे 9 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद होना ।

गिरफ्तार/अनावरण करने वाली टीम -

1. श्री सुधाकर पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन
2. श्री धीरज सोलंकी प्रभारी स्वाट टीम
3. श्री अरविन्द सिंह व030नि0
4. श्री सत्य सिंह 30नि0
5. का0 705 सुधीर कुमार 6. का0 1948 सावन कुमार
7. का0 1873 अंकित कुमार
8. का0 लोकेन्द्र कुमार (स्वाट टीम)
9. का0 आरिफ (स्वाट टीम)
10. का0 विपिन कुमार (स्वाट टीम)

सोशल मीडिया सेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद बदायूं ।